

### **B.A.G. Films and Media Limited**

"CIN: L74899DL1993PLC051841" FC-23, Sector 16A, Film City, Noida 201 301

Tel.: 0120 4602424 | Fax : 0120 3911401 Mail : info@bagnetwork.in www.bagnetwork24.in

BAG/STX/letters/2024-25/AM/1379 August 14, 2024

To, Corporate Relationship Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

Scrip Code: 532507 SYMBOL: BAGFILMS

Sub: - Submission of Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of newspaper advertisements published in the Business Standard-English and Business Standard –Hindi editions dated August 14, 2024 regarding publication of Un-Audited Standalone and Consolidatied Financial Results of the Company for the Quarter Ended June 30, 2024.

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours sincerely

For B.A.G. Films and Media Limited

(Ajay Mishra)

Company Secretary &

ray Mishra

**Compliance Officer** 

Encl: a/a















# SICAL LOGISTICS LIMITED

Regd.Office: South India House, 73, Armenian Street, Chennai - 600 001, Tamil Nadu Telephone: 044-66157071; E-mail: cs@pristinelogistics.com Website: www.sical.in

### EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

			(Rs. in	lakhs, except per	equity share data)		
S.No.	Particulars	Fo	For the quarter ended				
		June 30, 2024 Unaudited	March 31, 2024 Audited	June 30, 2023 Unaudited	March 31, 2024 Audited		
1	Total income from operations	4,198	4,422	6,989	22,109		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(1,730)	(1,596)	(805)	(5,339)		
3	Net Profit / (Loss) for the period (after exceptional items) before tax from continuing operations	(1,730)	(1,237)	(805)	(1,533)		
4	Net Profit / (Loss) for the period (after exceptional items) after tax from continuing operations	(1,767)	(1,494)	(928)	(1,986)		
5	Net Profit / (Loss) for the period (after exceptional items) after tax from discontinued operations	- (1,707)	(1,404)	(504)	(844)		
6	Profit / (Loss) for the period (after exceptional items) after tax	(1,767)	(1,494)	(1,432)	(2,830)		
7	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) including share of profit/(loss) from joint venture]	(1,768)	(1,510)	(1,433)	(2,846)		
8	Equity Share Capital	6,525	6,525	6,525	6,525		
9	Debenture redemption reserve as shown in the audited balance sheet  Other Equity (excluding revaluation reserves) as shown in the audited balance sheet	-	-	-	(3,653)		
10	Earnings per equity share (of Rs. 10/-) - Continuing operations				(*,****,		
	(a) Basic:	(2.75)	(2.09)	(1.66)	(3.12)		
	(b) Diluted	(2.75)	(2.09)	(1.66)	(3.12)		
	- Discontinued operations				. ,		
	(a) Basic:	-	-	(0.39)	(0.68)		
	(b) Diluted	-	-	(0.39)	(0.68)		
Nister					1		

Place : New Delhi

Date: August 13, 2024

1) Additional information on unaudited standalone financial results:

S.No.		F	For the		
	Particulars	June 30,2024 Unaudited	March 31, 2024 Audited	June 30,2023 Unaudited	year ended March 31,2024 Audited
1 2 3	Revenue from operations Net Profit/(Loss) before tax Net Profit/(Loss) after tax	418 (1,868) (1,868)	551 (1,026) (1,026)	3,480 (1,318) (1,318)	6,617 (4,592) (4,592)

- 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company (www.sical.in).
- 3. The above results have been reviewed and recommended by the audit committee and approved by the board of directors of the Company at their respective meeting held on August 13, 2024.

For and on behalf of the Board of Directors SICAL LOGISTICS LIMITED

(Rs. in lakhs)

Sd/-

(Amit Kumar)

DIN: 01928813

Director



Registered Office: Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462016, Madhya Pradesh (CIN: L45201MP2006PLC018689)





19 States



Rs.18,607 Crores Order Book



10,241 Equipments



Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30 June 2024

(₹ in lakhs)

Revenue 235,794

**EBITDA** 26,238

PAT 4,739

(₹ in lakhs except per share deta and ratio)

		Standalone						
Sr.No	Particulars		Year ended					
SI.NO	Particulars	30-Jun-24	31-Mar-24	30-Jun-23	31-Mar-24			
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations (net)	237,095.17	296,498.89	262,697.14	1,065,023.9			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	8,007.94	20,053.42	12,318.12	56,284.8			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	8,007.94	21,686.44	12,318.12	63,589.0			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	4,738.52	12,370.13	8,336.54	42,203.1			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,532.30	13,504.17	8,914.22	45,169.8			
6	Paid up Equity Share Capital	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.5			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	504,027.6			
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	91,429.6			
9	Net worth	NA	NA	NA	518,649.			
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	NA	NA	NA	186,655.			
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	N			
12	Debt Equity Ratio	0.49	0.36	0.58	0.3			
13	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (Not Annualized)							
	"1. Basic:"	3.24	8.46	5.70	28.8			
	2. Diluted:	2.92	8.22	5.70	28.0			
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	N			
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	N			
16	Debt Service Coverage Ratio	1.61	1.56	0.83	1.5			
17	Interest Service Coverage Ratio	2.31	2.81	1.90	2.8			

Note - 'NA' represents details not available for a particular period since these are calculated as of period end

			Consolid	 lated			
			Quarter ended				
Sr.No	Particulars	30-Jun-24	31-Mar-24	30-Jun-23	31-Mar-24		
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from Operations (net)	315,436.90	341,604.82	294,429.95	1,215,611.31		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	11,347.15	3,807.61	6,382.94	17,406.67		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	11,347.15	13,664.93	6,382.94	49,176.91		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	13,976.90	265.76	1,230.96	20,104.15		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	15,460.60	2,153.12	2,149.35	25,020.59		
6	Paid up Equity Share Capital	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	422,343.07		
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	91,429.62		
9	Net worth	NA	NA	NA	436,964.57		
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	NA	NA	NA	724,035.13		
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	N/		
12	Debt Equity Ratio	1.91	1.65	1.84	1.65		
13	Earnings Per Share of Rs. 10/- each (Not Annualized)						
	1. Basic:	9.56	0.18	0.84	13.75		
	2. Diluted:	9.29	0.18	0.84	13.36		
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA		
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	N/		
16	Debt Service Coverage Ratio	1.43	1.11	0.97	1.11		
17	Interest Service Coverage Ratio	1.68	1.55	1.63	1.55		

Note - 'NA' represents details not available for a particular period since these are calculated as of period end.

## Notes

Place: Bhopal Date : 13 August 2024

- The above unaudited Standalone and Consolidated financials results were reviewed by the Audit Committee and were approved & taken on record by the Board of tive meetings held on 12th August and 13th August 2024 respectively
- 2. The above unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and other accounting principles generally accepted in India
- The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and www. nseindia.com and on the Company's website i.e www.dilipbuildcon.com.
- 4. Figures for the earlier periods have been regrouped wherever necessary

For and on behalf of the Board of Directors of Dilip Buildcon Limited Dilip Survayansh

NEW DELHI | WEDNESDAY, 14 AUGUST 2024 Business Standard

# **GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED**

CIN: L16004MH1936PLC008587 Regd. office: Macropolo Building, Ground Floor abasaheb Ambedkar Road, Lalbaug, Mumbai - 400 033 Phone: 022-6195 2300/ Fax : 022-6195 2319 Corp. office: Omaxe Square, Plot No. 14, Jasola District Centre, Jasola, New Delhi- 110025

Phone: 011- 61119300, 26832155 website: www.godfreyphillips.co.in; email: isc@godfreyphillips.co.ir

### NOTICE

### (For the attention of Equity Shareholders)

Notice is hereby given that the 87th Annual General Meeting ("AGM") of the members of "Godfrey Phillips India Limited" ("the company") will be held on Friday. 6th September 2024 at 2:30 P.M. (IST), through Video Conferencing ('VC') /Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with general circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 along with subsequent circulars issued in this regard and the latest dated 25th September 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), Companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated 7th August 2024 Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorun under Section 103 of the Companies Act, 2013. The proceedings of the 87th AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Compan

n compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the 87th AGM and Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2024 have een sent on 13th August 2024 to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)/ Registrar & Transfer Agent (RTA). The notice of the 87th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 is available on the website of the Company at https://www.godfreyphillips.co.in, on the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited at https://www.bseindia.com and National Stock Exchange of India imited at https://www.nseindia.com/ respectively and can also be dowrrom the website of the RTA at https://instavote.linkintime.co.in

n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as mended from time to time) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic neans and businesses may be transacted through Remote e-Voting facility rovided by Link Intime India Private Limited.

he Remote e-Voting period will commence on Tuesday, 3rd September 2024 (9:00 A.M IST) and ends on Thursday, 5th September 2024 (5:00 P.M IST). The Remote e-Voting shall be disabled after completion of the voting period and no e-Voting will be allowed thereafter. The manner of voting remotely for members olding Shares in dematerialized mode, physical mode and for Shareholders tho have not registered their email address is provided in the Notice of AGM.

Members who have cast their vote by Remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again Members who have not cast their vote through Remote e-Voting and present in the AGM through VC, shall be eligible to cast their vote through e-Voting at the

The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date of 30th August 2024. Members holding shares either in physical form or in ematerialized form, on the said cut-off date are eligible to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM. Any person who acquire Shares of the Company after dispatch of AGM Notice and hold such Shares as of the cut-off date i.e. 30th August 2024, may obtain the Login ID and Password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if the member is already registered with Link Intime India Private Limited or Remote e-Voting, then he she can use his/her existing User ID and Password for casting the Vote.

Member who have not registered their email addresses are requested to registe the same with their Depository Participants (DP), if Shares are held in demater alized form and with Link Intime India Private Limited, if the Shares are held in Physical form by submitting their details on

ttps://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html

Members facing any technical issue in Login may contact Link Intime India Private Limited INSTAVOTE helpdesk by sending a request at ajiv.ranjan@linkintime.co.in or contact on Tel: 022-49186000.

Members may note that the Board of Directors at their Meeting held on 30th May 2024 has recommended a Final Dividend of Rs. 56/- per Equity Share of Rs. 2/ each for the Financial Year, 2023-2024, which is subject to the approval by the nembers in the forthcoming AGM. The final dividend will be paid within a period of 30 days from the date of approval in the AGM to those members whose ames appears in the Register of members as on the Record date of 23rd August 2024. Members may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020 mandates that Dividends paid or distributed by the Company after 1st April 2020 shall be taxable in the hands of the lembers. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the payment of Dividend. Members are requested to update their residential status, PAN and Category as per the Income Tax Act with their Depository Participants in case Shares are held in Dematerialized form or with the Company's RTA, if the Shares are held in Physical form.

Notice is further given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration Rules) 2014 (as amended from time to time) and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company wil remain closed from Saturday, 24th August 2024 till Friday, 6th September 2024 (both days inclusive) for the purpose of Dividend and AGM.

For Godfrey Phillips India Limited

Date: 13th August 2024

Sanjay Kumar Gupta Company Secretary



### RAVI KUMAR DISTILLERIES LIMITED

CIN: L51909PY1993PLC008493

Regd. Office: C- 9 & 10, Industrial Estate, 2nd Main Road, Thattanchavady, Puducherry - 605 009. Ph: 0413-2244007, 2248887, 2248887 mail: cscoravikumardistilleries.com Website: www.ravikumardistilleries.com Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

(Rs. in Lacs)

SI.	Particulars		Year Ended		
No.	Particulars	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 Audited
1	Net Sales / Income from Operations	1503.07	1623.12	1780.80	6,599.83
2	Net profit/loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	3.90	134.69	(46.69)	23.04
3	Net profit/Loss for the period ( before tax after Exeptional and /or Extraordinary Items*)	3.90	134.69	(46.69)	(194.45)
4	Net profit after Tax, Exceptional and Extraordinary items	3.90	134.69	(46.69)	(194.45)
5	Total Comprehensive Income After Tax	3.90	139.47	(46.69)	(189.67)
6	Equity Share Capital	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	N.A	N.A	N.A	1,773.71
8	EPS (for continuting and discontinued operations)				
	Basic	0.02	0.58	(0.19)	(0.79)
	Diluted	0.02	0.58	(0.19)	(0.79)

Notes: 1. The above is an Extract of the detailed format of quarterly results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter inded 30.06.2024 are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the company's website a ww.ravikumardistilleries.com. On behalf of the Board of Directors For Ravi Kumar Distilleries Limited

.. \*Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

R.V. RAVIKUMAR Managing Director (Din No. 00336646) Place: Puducherry Date: 13.08.2024

equitas

**EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED,** Regd. Office: 4<sup>th</sup> Floor, Phase II, Spencer Plaza, No. 769, Mount Road, Anna Salai, Chennai - 600002 Phone: + 91 44 4299 5000. Email: cs@equitasbank.com vw.equitasbank.com | CIN: L65191TN1993PLC025280

#### **NOTICE OF THE EIGHTH ANNUAL GENERAL** MEETING. RECORD DATE FOR DIVIDEND AND **E-VOTING INFORMATION**

- . The Eighth Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Equitas Small Finance Bank Limited ("the Bank") will be held on Tuesday, September 10, 2024 at 11.00 A.M. (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the Eighth AGM, in compliance with the General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and relevant circulars issued subsequently in this regard by the Ministry of Corporate Affairs, the latest being Circular No. 09/2023 dated Sentember 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars"), Circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by SEBI, applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEB Listing Regulations")
- Annual Report for the Financial Year 2023-24 along with Notice of AGM have been dispatched on August 13, 2024 electronically to the Members whose e-mail IDs are registered with the Bank / Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), **Depository Participants**
- The Notice of the Eighth AGM along with the Annual Report for Financial Year 2023-24 is available on the Bank's website at https://ir.equitasbank.com/ shareholderservices/, on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com and on the website of BSE Limited at https://www.bseindia.com and Nationa Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com
- Business as set forth in the AGM Notice are to be transacted through the electronic voting system provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") from a place other than the venue of AGM ("Remote e-voting") and e-voting during the AGM.
- All the Members are informed that:
- The instructions for participating through VC and the process of e-voting including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast their vote through remote e-voting are provided as a part of the Notice of the Eighth AGM
- Only those persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date, i.e., September 03, 2024 shall be entitled to participate in the Meeting & avail the facility of remote e-voting during the period mentioned for e-voting / vote during the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- The Remote e-voting shall commence at 09.00 A.M. IST on Saturday, September 07. 2024 & end at 05.00 PM. IST on Monday, September 09, 2024. Remote evoting module will be disabled by NSDL after 05.00 PM. IST on September 09. 2024. Once a vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently
- Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and present in the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- Any person, who has acquired shares of the Bank and becomes a Member after August 02, 2024 being the date for ascertaining the list of shareholders to whom the notice convening AGM was despatched up to the cut-off date for voting, i.e. September 03, 2024, may follow the steps mentioned in the Notice of the AGM uploaded in the Bank's website at https://ir.equitasbank.com/shareholderservices/ to obtain the login ID and password.
- . In case of any queries / grievances in respect of attending AGM through VC and voting by electronic means, Members may write to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager National Securities Depository Limited Trade World, A Wing, 4th Floo Kamala Mill Compounds, Lower Parel, Mumbai-400 013 or send an email to  $evoting@nsdl.com\, or\, call\, on\, 022\text{-}4886\, 7000\, /\, 022\text{-}2499\, 7000$

lembers may note that as per SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, it is mandatory for all holders of physical securities in listed entities to update their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details and specimen signature ('KYC details') and Choice of Nomination with the Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') in case they have not updated the same. Also, effective April 01, 2024, the dividend to security holders (holding securities in physical form) shall be paid only through electronic mode & such payment shall be made only after furnishing the PAN, contact details including the postal address, mobile number, bank account details and specimen signature.

To avoid delay in receiving dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (where shares are held in physical mode to receive dividend directly into their bank account on the pay-out date.

Registrar and Share Transfer Agent: KFIN Technologies Limited. Selenium Tower B Plot No 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 Toll free number-1800-309-4001, email: einward.ris@kfintech.com

The record date for the purpose of determining the entitlement of Shareholders for Dividend for the financial year 2023-24 is August 09, 2024. The payment of dividenc

Place: Chennai Date: August 13, 2024

shall be subject to the Shareholders approval at the Eighth AGM. By order of the Board For Equitas Small Finance Bank Limited sd/- N Ramanathan, Company Secretary



## **B.A.G. Films and Media Limited**

CIN: L74899DL1993PLC051841 Regd Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Kondli, New Delhi-110096 Corp Office: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP)-201301

Tel: 91-120 4602424. Fax No.: 91-120 3911401

Website: www.bagnetwork24.in, e-mail: info@bagnetwork.in

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024 STANDALONE

	STANDALONE				CONSOLIDATED				
PARTICULARS		Quarter Ende	d	Year Ended		Quarter Ende	d	Year Ended	
PARTICULARS	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total Income from operation (net)	907.06	1,042.74	883.95	3,595.08	2,847.55	4,035.34	2,489.33	13,186.44	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	54.42	88.34	45.29	151.52	188.82	(59.06)	82.56	842.14	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	54.42	88.34	45.29	151.52	188.82	(59.06)	82.56	842.14	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40.37	85.42	30.70	104.81	158.24	(48.95)	70.26	677.12	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	40.37	81.20	30.70	100.59	158.24	(67.67)	70.26	658.40	
Equity Share Capital	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	
Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -									
Basic:	0.02	0.04	0.02	0.05	0.08	(0.03)	0.04	0.33	
Diluted:	0.02	0.04	0.02	0.05	0.07	(0.03)	0.03	0.28	

Place: Noida Date: August 12, 2024

- 1. The above Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee. These  $results \, have \, been \, approved \, by \, the \, Board \, of \, Directors \, at \, their \, meeting \, held \, on \, August \, 12, 2024.$
- 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter ended on June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 are available to investors on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and  $\underline{www.bseindia.com} \, \text{and also on the \ Company's website} \, \, \underline{www.bagnetwork24.in}.$
- Previous quarter/year's figures have been regrouped / reclassified, wherever considered ne

106.4FM RADIO

For B.A.G. Films and Media Limited Anuradha Prasad Shukla **Chairperson and Managing Director** DIN: 00010716

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U67100GJ2015PTC083994

पंजीकृत कार्यालयः क्लॉक नंबर ए/1003, वेस्ट गेट, वाईएमसीए क्लब के पास सर्वे नंबर 835/1+3, एस. जी. हाईवे, मकरबा, अहमदाबाद- 380051 गुजरात कॉपोरेंट कार्यालयः पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रॉट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400038 ईमेलः Chetan.Rajpurohit@Cfmarc.In संपर्कः 079-66118554 और 079-6611855 मोबाइलः 9892816471

> परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तिय की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सीएफएम एसेट रिकंस्टब्शन पाइवेट लिमिटेड ('सीएफएम-एआरसी') (सीएफएम-एआरसी टस्ट - 117 के टस्टी वे रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) ने कमलेश कुमार एवं अन्य (कर्जदार एवं सह-कर्जदार) की अंतर्निहित प्रतिभूतिये सहित संपूर्ण बकाया ऋण को उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत पंजीकृत असाइनमेंट अनुबंध दिनांक 02.05.202 के माध्यम से अधिग्रहित कर लिया है और उक्त असाइनमेंट अनुबंध के आधार पर, निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जात) ने सीएफएम-एआरसी के पक्ष में अंतर्निहित प्रतिभृतियों औ गारंटियों सहित सभी अधिकार, स्वामित्व और हितों को हस्तांतरित कर दिया है।

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को एतदृहारा यह सुचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार वे पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (प्रतिभूत संपत्ति) जिनका सांकेतिक कब्जा सीएफएम-एआरसी वे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 02.07.2024 को लिया गया है, उन्हें प्रतिभृत लेनदारों को देय (1) श्री कमलेश कुम (कर्जदार), (2) नीटू कुमार, (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) विनसॉफ्ट एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, विनसॉफ्ट एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, विनसॉफ्ट इंटरनेशनल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड (सह-कर्जदार) से रु.1,55,44,143.90/- (रुपये एक करोड़ पचपन लाख चौवालीस हजार एक सौ तैंतालीस और नब्बे पैसे मात्र) और 87,75,435.78 (रुपये अस्सी-सात लाख पचहत्तर हजार चार सौ तैंतीस और अठहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 9.03.2023 को देय और भुगतान योग्य है, सा में 10.03.2023 से आगे का ब्याज और उस पर होने वाले व्यय में से वस्ली, यदि कोई हो, को घटाकर की वस्ली वे लिए 18 सितंबर 2024 को ''जहां है जैसा है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आध पर और ''आश्रय रहित'' आधार पर बेचा जाएगा। ।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	संपत्ति का समस्त भाग, पूरी तीसरी मंजिल, छत,टरेस सहित आसमान तक, सीढ़ी, मुख्य द्वार और मार्ग के सामान्य अधिकारों के साथ, अन्य सभी सामान्य सुविधाओं के साथ और नीचे की भूमि के आनुपातिक हिस्से के साथ, निर्मत फ्रीहोल्ड संपत्ति स्थ्य ए-337 का लांगिटहिस्सा, 400.00 वर्ग गज की भूमि, जनता सीएचबीएस लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित, जिसे मीरा बाग, पश्चिम विद्यार दिल्ली 110087 के नाम से जाना जाता है, जिसका स्वामित्य श्रीमती नीतू कुमार के पास है, सीमा:- उत्तर: प्लॉट नंबर 336, दक्षिण: प्लॉट नंबर 338, पश्चिम: प्लॉट नंबर 320, पूर्व: 200 फीट चौड़ी आउटर रिंग रोड
प्रतिभूत ऋणः	रु.1,\$5,44,143,90,∕- (रुपये एक करोड़ पचपन लाख चौवालीस हजार एक सौ तैंतालीस और नब्बे पैसे मात्र) और 87,75,435.78 (रुपये सतासी लाख पचहत्तर हजार चार सौ पैतीस और अठहत्तर पैसे मात्र) 9.03.2023 को देय और बकाया, साथ में 10.03.2023 से

	पति नाव पर्या नाव जार 37,75,435.78 (२५५ सताता लाख प्रवृत्तार जार चार पैतीस और अठहत्तर पैसे मात्र) 9.03.2023 को देय और बकाया, साथ में 10.03.2023 अतिरिक्त ब्याज
आरक्षित मूल्य (आरपी) :	रु. 3,15,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)
ईएमडी :	रु. 31,50,000/- (रुपये इकतीस लाख पचास हजार मात्र)
ई-नीलामी की तिथि :	ई-नीलामी/बोली वेबसाइट (https://www.bankeauctions.com) के माध्यम से तिथिः - 18.09.2024 - समयः 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.

अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेक निरीक्षण बोली जमा 17.09.2024 को 5.00 बजे अप. तक

करने की अंतिम डॉ. चेतन राजपुरोहित - 9892816471 ई-मेल : chetan.rajpurohit@cfmarc.in

ऋणभार, यदि कोई हो तो: प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात नहीं है। ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बोलियां जमा करने र पहले कृपया प्रतिभृत लेनदारों की वेबसाइट यानी https://www.cfmarc.in पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

बोलीदाता वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर भी जा सकते हैं या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिंग प्राइवेट लिमिटेड से बोलीदाता सहायता संख्याः 0124-4302020 / 21 / 22, +91 7291981124 / 1125 . 1126; ईमेलः support@bankeauctions.com, श्री भायिक पंड्या, संपर्क नंबर +91 886682937 Maharasthra@c1india.com पर संपर्क कर सकते हैं।

यह 30 दिन का नोटिस आप सभी को सरफैसी अधिनियम 2002 के तहत सरफैसी नियमों के नियम 8, उपनियम 6 व अनुपालन में दिया जा रहा है, जिसमें सभी कर्जदारों, सभी गारंटरों और सभी बंधककर्ताओं को उपरोक्त तिथि और समय प वे चाहें तो निर्धारित नीलामी से पहले बकाया राशि का भुगतान करके, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उस पर ब्याज अन्य लागत और बकाया व्यय का भुगतान करके प्रतिभूत संपत्तियाँ/प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने की सलाह दी जाती है। भुगतान में चूक की स्थित में, किसी भी या सभी प्रतिभृत संपत्तियाँ/प्रतिभृत परिसंपत्तियों को प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जाएगा।

दिनांक: 14.08.2024 सीएफएम एसेट रिकंस्टक्शन प्राइवेट लिमिटे स्थानः दिल्ली सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-117 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड जाजि हाडास्त्रा पाइन्स निवास्ट कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बीट बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014शाखा कार्यालयः चौरहवीं मंजिल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स नेताजी सुमाष पैलेस पीतमपुरा नई दिल्ली-110034

शुद्धिपत्र यह विज्ञप्ति कर्जदार विकास तोमर (एलएएन H401HLD0991996 एवं H401HLT006991) : लेए इस समाचार पत्र में दिनांक 13.08.2024 को प्रकाशित हमारी कब्जा सूचना वाले विज्ञापन के संद में है, जिसमें सम्पत्ति की चौहद्दी उत्तरः ओमा रन का मकान, दक्षिणः हरीश का मकान के रूप में प्रकाशि ाता प्रेन गांचा का कार्या जाए। जार्या जार्या कार्या कार्या विकास कार्या कार्या कार्या कर तथा ने प्रकारा हो गया था, हालांकि वास्त्रिवक चीहदियां निम्मानुसार होगीः पूर्वः फ्लैट नं, 201, पश्चिमः फ्लैट नं, 203 उत्तरः पैसेज, दक्षिणः सङ्क। अन्य सभी विषय वस्तु अपरिवर्तित एवं यथावत रहेंगे।

स्थानः दिल्ली/एनसीआर दिनांकः 14.08.2024 हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कब्जा सूचना सरफेसी अधिनियम की परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

चूंकि, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एव वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 07.06.2024 को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदार/ सह-कर्जवार **मैसर्स अग्रवाल इंटरप्राइज/श्री विकास अग्रवाल/श्रीमती सीमा अग्रवाल/श्री वी के अग्रवाल,** जिनका ऋण सुविधा संख्या 53958357 है, को कथित सुचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम रु. 10,132,582.99 (रुपये एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार पांच सौ बयासी एवं पैसे निन्यानवे मात्र) चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतदद्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सुचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा 12 अगस्त, 2024 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम् की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा रु. 10,132,582.99 (रुपये एक करोड़ एक लाख बत्तीस हजार पांच सौ बयासी एवं पैसे निन्यानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरणः पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063 के लेआउट प्लान में ब्लॉक ए-1 में, रिहायसी प्लॉट नं. 8 की पहली मंजिल, परिमाप 334.54 वर्ग मीटर, का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।

अधिकत अधिकारी स्थान : दिल्ली स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

### **Colab Cloud Platforms Limited** CIN: L65993DL1989PLC038194

Regd. Off.: 125, 2nd Floor, Shahpur Jat, New Delhi - 110 049. Phone: 8828865429; Email: cs@colabcloud.in; Web: www.colabcloud.in Extracts of the statement of Un-audited Financial Results for the quarter and three months ended on 30th June 2024

	(Allibulit III Lakiis except Li o)						
	Standalone						
Particulars	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)				
Total income from operations (net)	1118.940	225.546	31.503				
Net Profit/(Loss) for the period							
(before tax and exceptional items)	45.103	177.917	22.285				
Net Profit/(Loss)for the period before tax							
(after exceptional items)	45.103	198.753	22.285				
Net Profit / (Loss) for the period after tax	45.103	178.753	22.285				
Paid-up Equity Share Capital							
(Share of Rs. 2/- each)	2040.000	2040.000	1020.000				
Earning per equity share							
Basic	0.022	0.876	0.218				
Diluted	0.022	0.876	0.218				
N-4							

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Results for the quarter ended is available on the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com) Figures of the previous year have been re-grouped/re-arranged/re-classified wherever considered necessary

हस्ता. /-

डीआईएन: 08606277

2.31

(5.30)

(5.30)

(5.30)

समाप्त तिमाही

13.98

(30.33)

(30.33)

(21.92)

1.05 (21.92) (5.30)

(2.20)

99.60 99.60

3.20

1.05

1.05

1.05

99.60

30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 31.03.2024

(राशि लाख में)

समाप्त वर्ष

30.31

(31.16)

(31.16)

(22.75)

(22.75)

99.60

79.80

By Order of the Board Sd/-

थानः नोएडा

विवरण

अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट

करोपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट

रण मटों के उपरांत)

अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि (करोपरांत) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य परिपूर्ण

आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है)

प्रति शेयर उपार्जन (प्रत्येक रु. 10/- का) जारी एवं

तथा/अथवा असाधारण मदों के पहले

परिचालनों से राजस्व

नथा/अथवा असाध

इक्विटी शेयर पूंजी

2. डाइलुटेड

आय (करोपरांत) सम्मिलित]

स्थगित परिचालनों के लिए)-

तारीख: 12 08 2024

स्थानः नोएडा

Mukesh Jadhav DIN: 09539015 Director

#### लार्क ट्रेडिंग एण्ड फाइनैंस लिमिटेड CIN: L34102UP1987PLC009222

पंजीकृत कार्यालयः सी-273, सेक्टर-63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 प्राचारत कार्यास्त्र कार्यास्त्र कार्यास्त्र होते. १माषः 0120-6849500, ईमेल:<u>larktradingfinance@gmail.com</u> वेबसाइट:<u>www.larktrading.in</u>

37वीं वार्षिक साधारण बैठक एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में, जिसमें अन्य विषयों के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देशावलियों सम्मिलित है, यथा निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर कायातच न एजाएन न सामन्त होन के ।तए गिरसावातचा साम्मातत है , यथा गंचागरत व्यवसायक पहलुआ पर चर्चा करने के तिल्ए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा सेवी (एतओडीआर) विनयमें, 2015 तथा उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों के अनुपालन के तहत **तार्क ट्रेडिंग एण्ड फाइनैंस लिमिटेड** (कंपनी) के सदस्यों की 37वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) गुरुवार, 12 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे भामास कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी।

**ईमेल पता का पंजीकरण/अद्यतन का तरीका:** डिमेट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण एवं जिन्होंने अब तक अपने ईमेल आईडी का पंजीकरण/अद्यतः करना बाकी है, उनसे डिमैटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में एनएसडीएल/सीडीएसएल (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) प्ते सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है। भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए पैन कार्ड तथा पता के साक्ष्य की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ भलीभांवि करनागरित के एत से किन हैं हैं है जिस ती है जिस के स्वार्थ के स्वा कुला (इब्स्यू), सफद पाल इस्ट वस्ट इड. एस्टट क ानकट, मुबइन्यंग्याट (आरटार) के पास मजन अथवा हमारे आरटीए के पास service@satellitecorporate.com पर ईमेल लिखने का अनुरोध किया जाता है। सदस्यों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर अपना वोट रिमोटली डालने का अवसर प्राप्त होगा। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 09 सितम्बर, 2024 (सुबह 09.00 बजे) से बुधवार, 11 सितम्बर, 2024 (अपराहन 05.00 बजे) तक जारी रहेगी। ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए अंतिम तारीख शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2024 होगी। मीतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों अथवा जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल ारातच्य, २०२२ होगा। नाताक रूप र रायर एक्षन पाल संवरदारका अवया ।जन संवरवारका न अपने इनल आईडी का पंजीकरण नहीं कराया है अथवा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पर सूचना मेजे जाने के बाद शेयर अधिग्रहण कर कंपनी के सदस्य बने हैं उनके लिए ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने का प्रारूप एजीएम की सूचना में उल्लेखित है। ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट है-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम,

तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी। 149 (ना) दिन साहत) बंद रहेगा। फेनी एजीएम में बैलट प्रक्रिया के जिए बैठक में उपस्थित सदस्यों को वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। रेमोट ई-वोटिंग के जिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग किए जाने के वाबजूद भी सदस्य बैठक में शामिल हो सकते हैं, परंतु बैठक में उन्हें दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम तारीख को सदस्यों के सदस्यों के नाम दर्ज हैं सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग करने के

2015 के विनियम 42 के अनुपालन के तहत एतर्द्झारा यह सूचना भी दी जाती है कि एजीएम के जद्देश्य हेत् सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतर बहियां <mark>शनिवार, 07 सितम्बर, 2024 से गुरुवार, 12 सितम्बर, 202</mark>4

37वीं एजीएम की ऊपर उल्लेखित सचना के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई ाजाएमी। उसके लिए वेबलिक <u>http://larktrading.in/linance.html</u> तथा स्टॉक एक्सचेंजों यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइटों <u>https://</u>

रेमेड लैब्स लिमिटेड

CIN: L24111UP1992PLC014240 पंजीकृत कार्यालयः सी-273, सेक्टर-63 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301

बेबसाइटः <u>www.raymedlab.com</u> ई-मेलः <u>raymedlabsltd@gmail.com</u>, दूरभाष नं.: 0120-2426900, 9412700300

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सारांश

(सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) (बी)

(अलेखा परीक्षित)

0.00

0.00

(1.77)

(1.77)

(1.77)

427.35

0.00

(0.0415)

**टिप्पणी:** 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंप

के पास दायर तिमाही के विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.raymedlab.com पर उपलब्ध है।

www.msei.in/ तथा https://www.cse-india.com/ क्रमशः पर है।

डीआईएनः 10231038

31.03.2024

लेखा परीक्षित

0.00

0.00

(10.16)

(10.16)

(10.16)

427.35

0.00

(0.2378)

अजय गोय

कृते रेमेड लैब्स लिमिटेर

(पर्णकालिक निदेशक

डीआईएनः 02636418

कृते लार्क ट्रेडिंग एण्ड फाइनैंस लिमिटेड अतिरिक्त (पूर्णकालिक) निदेशक तारीखः 13.08.2024

समाप्ति तिमारी

30 06 2024 31 03 2024 30 06 2023

(लेखा परीक्षित)

0.00

0.00

(5.22)

(5.22)

(5.22)

427,35

0.00

(0.1221)

अलेखा परीक्षित

0.00

0.00

(1.58)

(1.58)

(1.58)

427.35

0.00

(0.0370)

खबरें जो बढाए आपकी तरक्की की रफ्तार SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Insight Out

आरक्षित मुल्य

संपत्ति की धराज

**ईएमडी :** रु. 1,30,000 /

हजार मात्र) आरक्षित मृत

यूरो एशिया एक्सपोटर्स लिमिटेड

Place: Delhi

Date: 13/08/2024

पंजीकत कार्यालय : प्लॉट नं. 3—ए. पहली मंजिल, बीएलके—X लोहा मंडी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली — 110028 निगमित कार्यालयः दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. बी—103, साउथ सिटी । , गुरुग्राम, हरियाणा—122001 CIN No.: L51909DL1981PLC012621, Email: info@euroasiaexportsltd.com

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (रु. लाख मे

विवरण ३ (स		समाप्त तिमाही ः					
		31.03.2024 (अंकेक्षित)	30.06.2023 (अनंकेक्षित)	31.03.2024 (अंकेक्षित)			
प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	155.54	1,229.59	6.70	1,250.82			
कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ और साधारण मदें	3.15	1.35	1.03	3.88			
कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ	3.15	1.35	1.03	3.88			
कर के बाद अवधि के लिए लाभ (हानि)	2.33	0.48	0.77	2.35			
अवधि के लिए कुल समग्र आय	2.33	0.48	0.77	2.35			
इक्विटी शेयर पूंजी	156.88	156.88	156.88	156.88			
आय प्रति शेयर :							
बेसिक	0.15	0.03	0.05	0.15			
डायल्यूडिट	0.15	0.03	0.05	0.15			
नोट: उक्त सेबी (सूचीबद्ध व अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत							

स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप है। तिमाही वित्तीय परिणाम का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.euroasiaexportsltd.com पर उपलब्ध है। यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उन्हीं की ओर से

विनायक वाणिज्य लिभिटेड

प्रसार किया पुरान प्राचित्र के पास फाइलबद्ध श्रीमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारींश हैं। पुरुसचेंज के पास फाइलबद्ध श्रीमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारींश हैं। श्रीमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bscindia.com पर तथा कंपनी की

पंजीकृत कार्यालय : पलेट नं 28. स्टिल्ट पलोर, देविका टॉवर, 6. नेइरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 : www.vinayakvanijya.com, दूरमार्च : 011 — 4367 5500, ईमेल आईबी : vvanijya1985@gmail.com, सीआईएन : L52110DL1985PLC020109 30 जून 2024 को समाप्त तिमाडी के पूषक अलेखापरीकित वित्तीय परिणामों का सारौंश [संबी (एलओडीआए) विनियमावली, 2015 का विनियम 47(1) (वी)]

हस्ता. /-राकेश कुमार सिंगल प्रबंधक निदेशक दिनांक : 13.08.2024 स्थान : नई दिल्ली

विवरण

नविध हेतु निवल लाभ ∕ (हानि) (कर, आपवादिक एवं ⁄ नथवा असाधारण मदों से पूर्व)

र पूर्व अवधि हेतु निवल लाम ∕ (हानि) (आपवादिक एवं , ध्यवा असाधारण मदों के पश्चात)

नवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाम/(हानि)

नथा अन्य व्यापत

(कर पश्चात) से समाविष्ट)

नमता अंश पूंजी

मूलभूत तरलीकृत

दिनांक : 12-08-2024

टिप्पणी

कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाम⊅(हानि) (आपवादिक एवं⊅ अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)

ारक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के खापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार

गय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का) परिचालनरत् एवं गपरिचालित परिचालनों हेतु—

वेबसाइट www.vinayakvanijya.com पर उपलब्ध है।

लार्क ट्रेडिंग एंड फाईनेंस लिमिटेड

सीकार्द्धग्न- स्विक्त स्वाधिक स्विक्त स्विक्त

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (सेबी(एलओडीआर) विनियमावली, 2015 का विनियम 47(1)(बी) तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त 30.06.2024 31.03.2024 30.06.202 (i) प्रचालनों से 75.22 17.54 0.94 11.64 12.23 20.41 30.67 17.54 87.45 ।वधि के लिए शुद्ध लाभ ∕ (हानि) (कर, विशिष्ट और ∕ या अस 4.50 5.32 ादों के पर्व कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात) 5.83 7.14 4.50 5.32 कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात 5.83 5.68 4.50 3.86 3.86 विधि के लिए कुल समग्र आय अविधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय कर पश्चात) शामिली डक्विटी शेयर पंजी 526.00 526.00 526.00 526.00 ारक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) र्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) 191.24 प्रति शेयर अर्जन (रु. 10 / – प्रत्येक के) (चालू व बंद प्रचालनों के लिए) –

नोद्ध ऊपर सेबी (सचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की

0.11

वेबसाइटः <u>www.msei.in</u> और कंपनी की वेबसाइट <u>www.larktrading.in</u> पर भी उपलब्ध है। दिनांक: 12.08.2024

हस्ता./— (शिवानी तायल) अपर (पूर्णकालिक) निदेशक डीआईएनः 10231038

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

30 के अनुसरण में }

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

मैसर्स महरौली रियल्टी एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड (CIN: U74140DL2008PLC184218) जिसका पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल. वर्ल्डमार्क 2, एसेट 8, एरोसिटी, एनएच-8, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली – 110037 में हैं के मामले में ....आवेदक कंपनी ⁄याचिकाकत एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्टीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती ह जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" स्थानांतरित करने के लिए 08 अगस्त 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएश में बदलाव की पष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतर से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है ते वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

0.09

0.07

#### B FINSERV बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बीट बिल्डिंग, पंचम तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र — 411014 शाखा कार्यालय : 14वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाईट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली — 110034, प्राधिकृत अधिकारी का विवरण : नाम : ललित कुमार त्यागी, ईमेल आईडी : lalit.tyagi@bajajfinserv.in, मोबाइल नं. 9855733149 / वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता ने यहां नीचे वर्णित अचल संपत्ति व बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के पास गिरवी रख दिया है और उक्त अचल संपत्ति (प्रतिभूत परिसंपत्ति / संपत्ति) क अधिग्रहण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफॉएसि अधिनयम 2002 और उसके नियमों के अनुसार कर लिया गया है। प्रतिभूत परिसंपत्ति क गिएचएफएल को देय ऋण बकाया, लागू ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए बोली लगाकर सार्वजनिक नीलामी के माध्य से बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। प्रतिमूत परिसंपत्ति को **31—अगस्त—2024** को बेचा जा रहा है और बोलीदान प्रतिमूति हिः (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम संख्या 8 व 9 के अंतर्गत तथा यहां नीचे विनिर्दिष . नियमों एवं शर्तों पर **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" और "बिना संसाधन आधार"** पर आयोजित किया जायेगा ई—नीलामी की तिथि एवं समय
 धराज जमा की अंतिम तिथि

3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय

		ऋण खाता विवरण / एवं गारंटर नाम एवं	(रॉ) के	
_	_	1140111111 0221012	** 404 *** (**0.0 40	

लन :— H401HHL0231812, H401HL1024 1. विपिन कुमार (दिवंगत होने के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) और (उघारकर्ता) पता— तृतीय तल पर बिना छत के अधिकारों के, संपत्ति संख्या— सी−195 झिलमिल, दिल्ली−110095 अन्य पता— पुत्र पन्ना लाल, पता— बी—36 टेलीकॉम स्टाफ क्वार्टर विवेक विहार, पूर्वी दिल्ली 110095 कुल बकाया : रु. 44,55,672/- (रुपये चौवालीस

लाख पचपन हजार छह सौ बहत्तर मात्र) 08 अगस्त 2024 से प्रभावी भविष्य के ब्याज और प्रोद्भृत शुल्कों के साथ लैन :- H401HHL0945548, H401HLT0952309

। सुनील शर्मा (उधारकर्ता) **ाता**: प्लॉट संख्या एफ 24 फ्लैट संख्या एसएफ-देतीय तल वेद विहार लोनी देहात. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश — 201102 2. कमलेश देवी (सह-उधारकर्ता)

सार्वजनिक नीलामी के नियम तथा शतेँ निम्नानुसार हैं

BAG

सायं 5:00 बजे तक (आईएसटी), 3) निरीक्षण की तिथि :— 14 अगस्त 2024 से 29 अगस्त 2024 मध्या. 11:00 से अप. 4:00 बजे क मध्य

(आईएसटी). **4) अचल संपत्ति का विवरण :** संपत्ति के समस्त वह भाग

1) ई-नीलामी तिथि :- 31 अगस्त 2024 को मध्या. 11:00 आरक्षित मूल्य : बजे से दोप. 12:00 बजे के मध्य 5 मिनट के असीमित विस्तार के साध, 2) केवाईसी के साध ईएमडी जमा करने सत्रह लिखे :- 20 अगस्त 2024 आगं हिस्स के साथ है एमडी जमा करने सत्रह लाख दस हजार मात्र). का आतम ाताथ :- 30 अगस्त 2024 साय घट-500 बजे तक (आईएसटी), **3) निरोक्षण की तिथि :-** 14 अगस्त 2024 से **ईएमडी :** रु. 1,71,000 / -29 अगस्त 2024 मध्या. 11:00 से अप. 4:00 बजे के मध्य (रुपये एक लाख इकहत्त 2. कमलेश देवी (सह—ष्टचारकता)
पता: राजा की कोठी के पास, अमरहेड़ी (८०)
जींद, हरियाणा — 126102
कुल बकाया: रू. 28,02.514/— (रुपये अहाईस लाख दो हजार पाँच सौ चींदह मात्र) 12 अगस्त 2024 से प्रमावी भविष्य के ब्याज और प्रोदमूत शुक्क के साथ

29 अगस्त 2024 मध्या. 11:00 से अप. 4:00 बज के सच्य (आईएसटी) 4) अवल संपत्ति का विकरण: संपत्ति के समस्त हजार मात्र), आरक्षित मृत्य का वह माना तथा अंश जो पत्तैट नं. एसएफ—2. द्वितीय तल, 10%, बोली वृद्धि: — र्वांट नंबर एफ—24 एसएलएफ वेद विहार, गाजियाबाद, एक. 25,000/— (रुपये पच्चीस प्रमावी भविष्य के ब्याज और प्रोदमूत शुक्क के साथ

1) ई-नीलामी तिथि :-- 31 अगस्त 2024 मध्या. 11:00 से दोप. 12:00 आरक्षित मूल्य बजे के मध्य 5 मिनट के असीमित विस्तार के साध, 2) केवाईसी के ए. 13,00,000/-

(अाइएसटा), 4) अपन्न संपात का विषरण: स्पात क समस्त वह माग तथा अंशा पो पर्वेट नंबर जी-0.4, मृतल पर पोछे की और एलआईजी, स्टॉट नं. एन.के.पी-1/58 न्याय खंड 1 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, जत्त प्रदेश-201010 में स्थित हैं, जिसका अधिमापन 30 वर्ग मीटर और सीमा इस प्रकार है- पूर्व : 2 मीटर सेड, पश्चिम : प्लॉट नं. 47, जत्तर : प्लॉट नं. 59, दक्षिण : प्लॉट नं. 57

साथ **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि :-** 30 अगस्त 2024 को तेरह लाख मात्र)

• सार्वजनिक नीलामी "जैसी है जहां है, जैसी है जो है और बिना किसी संसाधन आधार" पर आयोजित की जा रही है और इसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात या अज्ञात सभी विद्यमान और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्रतिभत परिसंपत्ति आरक्षित मुल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी।

• नीलामी बिक्री ई—नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी

• ई—नीलामी, पोर्टल https://bankauctions.in के माध्यम से 31—अगस्त–2024 को 11:00 से 12:00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमि स्वतः विस्तार के साथ होगी। • विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कंपनी के वेबसाइट यूआरएल https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices देखें या किर

भी स्पष्टीकरण के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। दिनांक : 14-अगस्त-2024

### बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1993PLC051841

पंजीकृत कार्यालयः ३५२, अग्रवाल प्लाजा, प्लाट नं. ८, कोंडली, नई दिल्ली-110096 कारपोरेट कार्यालयः एफसी-23, सेक्टर-16ए, फिल्म सिटी, नोएडा (उ.प्र.)-201301 वेबसाइटः www.bagnetwork24.in, ई-मेलः info@bagnetwork.in

\_4\_\_10

30 जून, 2024 का समाप्त तिमाही के लिए अलखापराक्षित एकल और समाकत वित्ताय पारणामा का सार (र लाखों में)										
		एर	कल		समेकित					
विवरण		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	1	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त		
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024		
	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	907.06	1,042.74	883.95	3,595.08	2,847.55	4,035.34	2,489.33	13,186.44		
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पूर्व)	54.42	88.34	45.29	151.52	188.82	(59.06)	82.56	842.14		
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	54.42	88.34	45.29	151.52	188.82	(59.06)	82.56	842.14		
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	40.37	85.42	30.70	104.81	158.24	(48.95)	70.26	677.12		
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम / (हानि)(कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात)]	40.37	81.20	30.70	100.59	158.24	(67.67)	70.26	658.40		
इक्विटी शेयर पूंजी	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66		
प्रति शेयर अर्जन (₹2/— प्रत्येक के) (चालू और बंद प्रचालनों के लिए)—				 						
बेसिकः	0.02	0.04	0.02	0.05	0.08	(0.03)	0.04	0.33		
डायल्यूटेडः	0.02	0.04	0.02	0.05	0.07	(0.03)	0.03	0.28		

30 जुन, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई। ये परिणाम निदेशक मंडल द्वारा 12 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए।

उपर्यक्त सेबी (सचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली. 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए 30 जन, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> और <u>www.bseindia.com</u> और कंपनी की वेबसाइट <u>www.bagnetwork24.in</u> पर भी उपलब्ध है।

पूर्व तिमाही / वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हुआ, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हिते बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

अनुराधा प्रसाद शुक्ला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00010716

# ओसवाल ओवरसीज लिभिटेड

30-06-2024 को समाप्त तिमाही हेत् अलेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

सीआईएन : L74899DL1984PLC018268 पंजी कार्यालय : 98ए, द्वितीय तल, नम्बरदार एस्टेट, तैमूर नगर, नई दिल्ली-110065 फोन नंबर :- 011-41084256, ई-मेल : cs@oswaloverseasltd.com, वेबसाइट : www.oswaloverseasltd.com

					(रू. लाख में)
豖.		तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त
सं.	विवरण	30-06-2024	31-03-2024	30-06-2023	31-03-2024
2 2		अ—लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	2201.54	3778.95	3738.55	15208.29
2.	साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात	-232.16	342.45	-747.67	-510.59
	(असाधारण मदों से पूर्व)				
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर पश्चात (असाधारण मदों के बाद)	-232.16	342.45	-747.67	-544.84
4.	अन्य समावेशी आय	-0.17	0.30	0.52	3.05
5.	शुद्ध लाभ / (हानि)	-232.33	342.74	-747.15	-541.79
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	646.11	646.11	646.11	646.11
7.	रू. 5/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर्स की संख्या	12922100	12922100	12922100	12922100
8.	संचेय (तुलनपत्र में दर्शित पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर)				
		-	(5)	-	-2062.35
9.	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व)				
100	(अंकित मूल्य : रू. 10 / – प्रत्येक)				
	मूल :	-1.80	2.65	-5.78	-4.19
	तनकतः	1 00	265	5.70	4.10

-1.80 2.65 टिप्पणियां : . 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए ग तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.oswaloverseasltd.com) पर उपलब्ध है।

2 उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा सिमित द्वारा और तदुपरान्त अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी 3. शर्करा उद्योग (शुगर इंडस्ट्री) एक ऋत् आधारित उद्योग है, जिसमें पेराई सामान्यतः नवम्बर से अप्रैल के बीच की अवधि में होती है, जबकि बिक्री पूर

वर्ष के दौरान होती है। कम्पनी का प्रदर्शन प्रत्येक तिमाही में भिन्न होता है।

तिथि : 13-08-2024

कृते एवं हिते निदेशक मंडल ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड परमजीत सिंह प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00313352

110037 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से महरौली रियल्टी एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड हस्ता /-दिनांक: 13.08.2024 स्थान: नई दिल्ली **अजीता कहाले** (निदेशक) **डीआईएन**: 09478115 डीआईएन : 09478115

कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) र

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिस

उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण

उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक

को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पते, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक

द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को

. उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें तीसरी मंजिल. वर्ल्डमार्क २. एसेट ८. एरोसिटी.

एनएच-8, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली

भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र** 

स्थान : नोएडा दिनांकः 12 अगस्त, 2024



106.4FM RADIO